



बिहार: सीतामढ़ी में नकली नोट के बड़े गिरोह का भंडाफोड़, 2 तस्कर गिरफ्तार

सीतामढ़ी में पुलिस ने 11 लाख 66 हजार रुपए के जाली नोटों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को शक है कि इसके तार बंगाल के साथ पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं.



बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने 11 लाख 66 हजार रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए हैं. पुलिस ने इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान डुमरा थाना क्षेत्र के सिमरा निवासी वारिस मियां और दरभंगा जिला के जाले थाना के रेवठा निवासी नेयाज अहमद के रूप में हुई है.

सीतामढ़ी के एसपी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बाइक सवार दो व्यक्ति जाली नोट लेकर खड़का से सीतामढ़ी जाने वाला है. नानपुर थानाध्यक्ष राकेश रंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर छापेमारी और जांच का आदेश दिया. पुलिस ने थाना क्षेत्र के मझौर एवं हरिनगर मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान शुरू किया. एक मोटरसाइकिल पर दो सवार लोग सवार थे. पुलिस की गाड़ी देखकर दोनों भागने लगे. पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

तलाशी लेने पर नेयाज अहमद के प्लास्टिक के झोला से 11,66,750 रुपए अखबार से ढका मिला. तस्करों के पास से बिना नंबर की बाइक बरामद की गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया. पुलिस पूछताछ के दौरान नेयाज ने बताया

कि जाली नोट पश्चिम बंगाल के मालदह से छोटू से मंगवाया गया था. इसे मेजरगंज थाना क्षेत्र के कुवारी निवासी कन्हारि सिंह और सतार मिया को डिलीवरी करने जा रहा था.

पुलिस के मुताबिक, ये पूरा रैकेट बंगाल से ऑपरेट होता है. पुलिस को इसके तार बंगाल के साथ पाकिस्तान से जुड़े होने का शक है, जिसकी जांच की जा रही है.

Source: <https://www.aajtak.in/india/bihar/story/sitamarhi-fake-notes-gang-busted-police-arrested-two-accused-bihar-lcl-1513422-2022-08-05>